

For your Bank of Baroda
 1800 22 33 44, 1800 102 44 55
 Toll free Phone Numbers of Contact Centre: 1800 22 33 44, 1800 102 44 55

Bank of Baroda



Office - Mandvi, Baroda

Received With Thanks From *M.V. is subject to TDS

MR HEMANT KUMAR SINGH

Maturity Value ₹

Customer Ref. No. 061961481
 जारी तारीख 061961481
 Issue Date 03-03-2020
 तारीख को 03-03-2020
 As of Date 03-03-2020
 देय तारीख 03-03-2020

Due Date 03-03-2020
 जन्म तारीख (यदि माहुरिग) 21

D.O.B. if Minor
 खाता क्र.

A/c No. 31200300016232

अवधिक जमागशि के योजना अनुसार
 AS Term Deposit Under FRD Scheme

रसीद क्रमांक	मूल्य तारीख	देय तारीख	अवधि	व्याज दर	राशि ₹
Receipt No.	Value Date	Due Date	Period	Rate of Interest	Amount ₹
TDR/2016/LL	03-03-2020	03-03-2021	1-Yr 0-Mt	6.00	16,40,000.00
0926849			0-Days		

परिचालनीय अनुदेश यदि है

Operational Instructions, if any

SELF

Nominee Name: नामिती रजिस्ट्रेशन क्र

Nominee's Reg. No.

अहस्तान्तरनीय
 NON-TRANSFERABLE

लिणन नोट करने की ता.
 Lien Noted On

लिणन रद्द करने की ता.
 Lien Cancelled On

कुते बैंक ऑफ बड़ौदा For BANK OF BARODA

वरीष्ठ प्रबंधक	Senior Manager	प्रबंधक	Manager
हस्ता, क्र. SIG. NO.	5-47748	हस्ता, क्र. SIG. NO.	

नवीनीकरण का ब्यौरा		Particulars of Renewals			
नवीनीकरण तारीख	राशि ₹	अवधि	ब्याज दर	परिपक्वता मूल्य ₹	देय तारीख
Date of Renewal	Amount ₹	Period	Rate of Interest	Maturity Value ₹	Due Date
03/03/24	1893563	1200	6.75%	2024, 886	03/03/24
03/03/24 2011/3/11 कायमासिक पुनर्बदल 6.85%					
2.152595 03/03/24					

शर्तें

- जमा राशि समीक्षा के बाद तत्काल नवीनीकरण के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। पर सटीक विवरण के बिना नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।
- बैंक की सुविधा, अभिलेखों में रसीदें नियुक्त रखी जा सकती हैं।
- जमा राशि का भुगतान प्राप्त करने या नवीनीकरण हेतु रसीदें पर अंकित देय तारीख या उसके बाद रसीदें प्रस्तुत करें।
- अवधि तथा जमा राशि के प्रकार एवं शर्तों के अनुसार मासिक, छ: माह, या परीपक्वता पर साढ़े ब्याज की अनुमति है। मासिक ब्याज योजना पर ब्याज नियामक द्वारा डिस्कॉन्ट किया जाता है। जमा राशि के लिए पर ब्याज रिमार्क पर कंपाउंड किया जाता है, और केवल परीपक्वता पर भुगतान किया जाता है।

स्वतः नवीनीकरण की शर्तें:

- 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए जारी जमा रसीदें: यदि निरत तारीख पर अन्तर्गत अनुदेश प्राप्त न हुए हों तो जमा रसीदें वगैरह नवीनीकरण के लिए प्रयत्न किए जाएंगे।
- 1 वर्ष से कम अवधि के लिए जारी की गई जमा रसीदें: यदि निरत तारीख पर अन्तर्गत अनुदेश नहीं पाए जाते तो जमा रसीदें नवीनीकरण पर लागू ब्याज दर से जमा की जाएंगे।

CONDITIONS

1. Receipts not transferable by endorsement. Payments to third party must be sanctioned by a letter of authority accompanied by the Receipt, duly discharged.
2. Receipts can be kept in the Bank's safe custody free of charge.
3. To receive payment or for renewal, please produce the Receipt on due date as indicated in the Receipt or thereafter.
4. Simple interest allowed monthly, half yearly or at maturity depends on period and type of deposit and party's instructions. Interest on monthly income plan is discounted as per rules. Interest on RIRD is compounded quarterly and paid at maturity only.
5. Penalty will be charged on premature withdrawals of deposit as per extant guidelines. Please confirm from the branch.
6. Prepayment of term deposit for Rs. One Crore and above will be allowed as per discretion of the bank.
7. For Deposit receipt issued for 1 year and above-Deposit will be renewed for 1 year at the prevailing rate on due date if not instructed otherwise.
8. For Deposit receipt issued for less than 1 year. Deposit will be renewed for the same period with the interest rate applicable on due date, if not instructed otherwise.

"In case of your FD receipt is collected through third party, please ascertain its credentials from your base branch immediately by giving FD account number/details."

"यदि आपकी सार्वजनिक जमा रसीदें तीसरे पक्ष द्वारा संग्रहित की जाती हैं तो ऐसे मामलों में, कृपया अपनी सार्वजनिक जमा खाता संख्या/विवरण देते हुए अपनी आधार शाखा से उसकी प्रामाणिकता की जानकारी प्राप्त करें।"

Executive Engineer
R.W.D. Work Div. Mohania



Bank of India
Baroda
Mandvi, Baroda
With Thanks From
N.P.C.C.